

**प्रेस नोट दिनांक 14.02.2021**  
**थाना सुभाषनगर जनपद बरेली**

**थाना सुभाषनगर #bareillypolice द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत में हुई नकबजनी के अभियुक्त नन्हे को किया गिरफ्तार तथा कब्जे से चोरी किया गया समस्त सामान (कीमत करीब चार लाख रुपये), 14500 रुपये नकद व एक अदद तमंचा 315 बोर मय दो जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होना।**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली के निर्देशन में तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय नगर बरेली व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर द्वितीय बरेली के पर्यवेक्षण में उ०नि० अजब सिंह मय हमराह कर्म०गण के रोकथाम जुर्म जरायम, तालाश वांछित अभियुक्त/वारण्टी, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, देखरेख कानून/शांति व्यवस्था में बदायूं रोड पर मामूर थे कि मुखबिर खास ने सूचना दी कि एक व्यक्ति बाला जी मंदिर के पीछे बने मकान में कुछ सामान के साथ खड़ा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर उ०नि० अजब सिंह मय पुलिस टीम के बाला जी मंदिर के पीछे बने मकान पर पहुंचे और मुखबिर द्वारा बताये हुए व्यक्ति को रुकने का इशारा किया तो सकपकाकर भागने लगा तो पुलिस टीम द्वारा उस व्यक्ति को घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति के कब्जे से ज्वैलरी व नकदी 14500 रुपये, दो एल०ई०डी०, एक अटेची व सामान, एक रूम हीटर, कपड़े आदि एवं एक अदद तमंचा 315 बोर मय दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसके द्वारा अपना नाम नन्हे पुत्र राजाराम निवासी ग्राम अखा थाना विशारतगंज जिला बरेली बताया गया। नन्हे उपरोक्त द्वारा दिनांक 12/13.02.2021 की रात्रि को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र से एक घर में नकब लगाकर चोरी की गयी थी जिस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु०अ०स० 55/21 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत है।

**गिरफ्तार अभियुक्त:-**

1. नन्हे पुत्र राजाराम निवासी ग्राम अखा थाना विशारतगंज जिला बरेली उम्र करीब 45 वर्ष ।

**बरामदगी का विवरण:-**

ज्वैलरी दो सोने के कंगन, दो चैन, दो टोपस, चांदी की पायल, चांदी की कंगन, सिक्का व नकदी 14500 रुपये, दो एल०ई०डी०, एक अटेची व सामान, एक रूम हीटर, कपड़े आदि व एक अदद तमंचा 315 बोर मय दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

**पंजीकृत अभियोग का विवरण:-**

1. मु०अ०स० 68/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम नन्हे उपरोक्त थाना सुभाषनगर जनपद बरेली।
2. मु०अ०स० 55/2021 धारा 457/380 भादवि बनाम नन्हे उपरोक्त थाना कोतवाली जनपद बरेली।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ०नि० श्री अजब सिंह थाना सुभाषनगर जनपद बरेली
2. आरक्षी 492 गौरीशंकर थाना सुभाषनगर जनपद बरेली
3. आरक्षी 1787 शैलेन्द्र प्रताप थाना सुभाषनगर जनपद बरेली
4. आरक्षी 56 अवनीश थाना सुभाषनगर जनपद बरेली
5. आरक्षी 696 निखिल थाना सुभाषनगर जनपद बरेली।

**सोशल मीडिया सैल  
जनपद बरेली।**